

Calgary



## सार्वजनिक किराया वाहन

बुलेटिन #003

सुलभ टैक्सी प्रोत्साहन परिवर्तन

30 जनवरी 2023

WAV कैलगरी और सुलभ टैक्सी प्रोत्साहन कार्यक्रम (ATIP) से जुड़े सहभागिता सत्रों में भाग लेने वालों को मेरी ओर से धन्यवाद। उद्योग ने बहुत अधिक सहयोग देते हुए बहुमूल्य फीडबैक प्रदान किया; खास जानकारी इस प्रकार से है:

- WAV कैलगरी को टैक्सी कंपनी के माध्यम से संचालित नहीं किया जाना चाहिए
- WAV कैलगरी मंच पर सभी ड्राइवर्स के प्रति निष्पक्षता, पारदर्शिता और समानता होनी चाहिए
- कुछ ड्राइवर्स को (WAV कैलगरी मंच पर) अपने आप ही 'बड़ी' ट्रिप मिलती है, भले ही वे पिक-अप वाले स्थान के बेहद करीब मौजूद नहीं हों
- WAV कैलगरी फोन लाइनें अधिकतर व्यस्त रहती हैं और ड्राइवर ट्रिप विवरण की पुष्टि करने या सहायता का अनुरोध करने के लिए डिस्पैचर से संपर्क करने में असमर्थ होते हैं
- टैबलेट पर गूगल मैप अब बहुत उपयोगी नहीं रह गया है
- ड्राइवर्स को "कोड 8" ट्रिप के लिए प्रति ट्रिप प्रोत्साहन मिलना चाहिए (जो उनके ब्रोकर द्वारा दिया जाता है)
- ड्राइवर्स को ग्राहक द्वारा रद्द किए गए WAV ट्रिप और 'अनुपस्थिति' (नो शो) के लिए प्रति ट्रिप प्रोत्साहन मिलना चाहिए
- प्रति ट्रिप प्रोत्साहन के लिए सुबह/ रात के घंटों की समय अवधि बदलें (सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक और शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक)
- ड्राइवर्स को हर तीन महीने के बजाए हर महीने प्रति ट्रिप प्रोत्साहन मिलना चाहिए
- पुराने वाहनों, वाहन बदलने की बढ़ती लागतों और नए/अधिक नए वाहनों में रैंप इंस्टाल करने की बढ़ती लागतों से निपटने के लिए और अधिक वित्तीय सहायता

ATIP परिवर्तन:

- प्रति ट्रिप प्रोत्साहन घंटे बदल कर सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक और शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे तक किए जाएंगे
- प्रति ट्रिप प्रोत्साहन मासिक रूप से जारी किए जाएंगे (WAV कैलगरी मंच पर पूरी की गई ट्रिप के लिए)

किराया वाहन उद्योग की ओर से संदेश

- प्रति ट्रिप प्रोत्साहन बढ़ा कर \$15 (सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक) और \$25 (शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे तक) किए जाएंगे
- वार्षिक सुलभ ड्राइवर प्रोत्साहन \$2000 से बढ़ा कर \$4500 किया जाएगा
- वार्षिक सुलभ प्लेट होल्डर प्रोत्साहन \$3000 से बढ़ा कर \$3500 किया जाएगा

किराया वाहन टीम अतिरिक्त प्रोत्साहन पेश करने के अवसर की तलाश में है:

- 'कोड 8' ट्रिप
- ग्राहक द्वारा 'रद्द की गई' और 'अनुपस्थिति' ट्रिप
- रैंप इंस्टाल करने के लिए वित्तीय सहायता

शहर WAV कैलगरी प्रतिनिधियों के साथ सहयोग कर रहा है, सिस्टम अपडेट/डेटा समीक्षाओं की तलाश कर रहा है और नए प्रोत्साहनों के लिए अवसरों का मूल्यांकन कर रहा है। सुलभ टैक्सी प्रोत्साहन की रूपरेखा का अपडेट किया गया संस्करण [Calgary.ca](http://Calgary.ca) पर पोस्ट किया गया है।

यह बुलेटिन अम्हारिक, अरबी, हिंदी, पंजाबी, सोमाली और उर्दू में यहाँ उपलब्ध है: [Calgary.ca](http://Calgary.ca)

सुलभ टैक्सी प्रोत्साहन कार्यक्रम के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए कृपया यहाँ ईमेल करें: [itsengagement@calgary.ca](mailto:itsengagement@calgary.ca)

भवदीय,



कार्यकारी उपप्रमुख, सार्वजनिक वाहन मानक  
आपातकालीन प्रबंधन और समुदाय सुरक्षा